

# RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

(Formerly known as Rita Holdings Limited)

Regd. Off.: 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085

E mail: ritaholdingsltd@gmail.com, website: www.ritaholdings.in, Tel: 011-65448440, Mob: +91-8376095513

CIN: L67120DL1981PLC011741

---

May 28, 2018

To

Head- Listing & Compliance

Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI)

4<sup>th</sup> Floor, Vibgyor Towers,

Bandra Kurla Complex, Bandra East,

Mumbai – 400 098

Dear Sir,

Sub.: Newspaper advertisement of Financial results for the quarter and year ended March 31, 2018

ISIN: INE018S01016/ Symbol: RFL

With reference to the regulation 47 and other applicable regulations, if any, of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of Audited Standalone Financial results for the quarter and year ended March 31, 2018 approved at board meeting held on Friday, May 25, 2018 at 04:00 p.m. published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "Financial Express" and Hindi newspaper i.e. "Jansatta" as on Sunday, May 27 2018.

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Rita Finance and Leasing Limited

(Formerly known as Rita Holdings Limited)



Pawan Kumar Mittal  
(Additional Director)

DIN: 00749265









## मान एल्युमिनियम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 4/5, फर्स्ट फ्लोर, असफ अली रोड, नई दिल्ली-110002  
CIN: L30007DL2003PLC214485, फोन: 011-40081800,  
वेबसाइट: www.maanaluminium.in, ईमेल: info@maanaluminium.in



### 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का उद्घरण

(रु. लाखों में ईपीएस को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		31 मार्च 2018	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1	प्रचालन सकल से कुल आय	10,871	44,907	35,604
2	अपवादाल्मक मदों और कर से पहले शुद्ध लाभ	150	977	511
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ	150	977	511
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ	95	642	327
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	103	648	317
6	इक्विटी शेयर पूंजी	676	676	338
7	प्रत्येक रु. 10/- से प्रति शेयर आय			
	बेसिक ईपीएस (नोट: 3 देखें)	1.41	9.49	4.83
	डायल्यूटेड: ईपीएस (नोट: 3 देखें)	1.41	9.49	4.83

#### नोट्स:

- 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति ने की है और 25 मई, 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 1 अप्रैल, 2016 (पारगमन तिथि 1 अप्रैल, 2016 के रूप में) से प्रभावी भारतीय लेखाकरण मानक (इंड-एस) अपनाया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम इंड-एस के अनुरूप हैं और इंड-एस के अनुपालन में 31 मार्च, 2017 को समाप्त तुलनात्मक वर्ष के परिणामों को भी पुनः वर्णित किया गया है।
- कंपनी ने 1:1 के अनुपात में 13 जुलाई, 2017 को बोनस इक्विटी शेयर जारी किये गये हैं इसलिए पिछली अवधि के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) तदनुसार पुनः वर्णित किया गया है।
- सेबी (सुधियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई उपरोक्त त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है। सम्पूर्ण वित्तीय परिणाम [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और [www.maanaluminium.in](http://www.maanaluminium.in) पर उपलब्ध है।

कृते और बोर्ड की ओर से  
हस्ता/-  
(रविन्द्र नाथ जैन)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली  
तिथि: 25 मई, 2018

## RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

(Formerly known as Rita Holdings Limited)

Regd. Off: 324A, IIIRD Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini New Delhi 110085  
Tel: +91-11-64553553 Email Id: ritaholdingsltd@gmail.com Website: www.ritaholdings.in  
CIN: L67120DL1981PLC011741

### Extracts of the Standalone Audited Financial Results For the Quarter and year ended 31st March, 2018

(₹ In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Year to date Figures	Corresponding 3 months ended in the previous year
		31/03/2018 (Audited)	31/03/2018 (Audited)	31/03/2017 (Audited)
1.	Total income from operations	10.86	25.41	(5.71)
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.05)	3.09	(14.81)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.05)	3.09	(14.81)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(2.05)	2.29	(14.83)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(2.05)	2.29	(14.83)
6.	Equity Share Capital	280.00	280.00	110.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	78.11	78.11	77.96
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	0.07	0.08	(1.35)
	2. Diluted :	0.07	0.08	(1.35)

#### Note:

- The Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2018 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on May 25, 2018. The Standalone Audited Quarterly Financial Results along with Statement of Assets and Liabilities have been subjected to Auditors' Report pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 received from the Statutory Auditors of the company.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange(s) website i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited ([www.msei.in](http://www.msei.in)) and Website of the Company i.e. ([www.ritaholdings.in](http://www.ritaholdings.in)).

For and on behalf of the Board of Directors  
Rita Finance and Leasing Limited  
(Formerly known as Rita Holdings Limited)  
Sd/-

Pawan Kumar Mittal  
(Additional Director)  
DIN: 00749265

Date : 26/05/2018  
Place: New Delhi